



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1936 (श0)
(सं0 पटना 884) पटना, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2014

सं0 मु०अ०को०-04/2014-485/न० वि० एवं आ० वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2014

विषय:—बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में।

सरकार द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड की जन-निजी भागीदारी आधारित आवासीय व व्यवसायिक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पदाओं के लीज की अवधि 30 वर्ष रखी गई थी। सरकार की स्वीकृति के आलोक में बोर्ड द्वारा 30 वर्ष की लीज अवधि के प्रावधान के साथ टेंडर किया गया था। आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि काफी कम यानी 30 वर्ष रहने के कारण टेंडर आवासीय सम्पदाओं में डेवलपर्स ने रुचि नहीं दिखाई।

2. फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों के आवास बोर्ड और डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा दी जा रही लीज अवधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

3. सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन-निजी भागीदारी आधारित परियोजना में आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि 90 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
बी. राजेन्द्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 884-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>